

PHILOSOPHY (SUBSIDIARY)

Paper I

Indian Philosophy

Time - 3 hours

Full Marks - 100

1. Charvaka - Epistemology and Ontology.
2. Buddha - Four Noble Truths.
3. Jaina- Syadvada, Jiva and its bondage and liberation
4. Sankhya-Satkaryavad and theory of Evolution.
5. Yoga - Eighfold Paths and concept of God.
6. Nyaya- Sources of Knowledge.
7. Vaisesika- Seven Categories.
8. Vedanta- Shankar's Brahman, Soul and World.
9. Ramanuja- Brahman and refutation of Shankar's Mayavad.

Books Recommended :

1. Introduction to Indian Philosophy by Datta & Chatterjee
2. भारतीय दर्शन (अनु० झा एवं मिश्र) - दत्त एवं चटर्जी
3. भारतीय दर्शन की रूप रेखा -- हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा
4. भारतीय दर्शन -- डा० बद्रीनाथ सिंह
5. भारतीय दर्शन -- डा० ब० कु० लाल